



28th May, 2025

BSE Limited. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalai Street, Mumbai 400 001

BSE Scrip Code No: 530207

Scrip ID:Brawn

SUB: Submission of published results under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015

Dear Sir,

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed copy of publication of results for the quarter/year ended 31st March, 2025 published in newspapers on 28th May, 2025 viz. Business Standard (English newspaper) and Business Standard (Hindi newspaper).

Kindly take the same on your record.

Thanking You, Yours Faithfully,

For Brawn Biotech Limited

Priyanka Sharma

(Company Secretary & Compliance Officer)

Membership No. A50385

Encl:As above

BRAWN BIOTECH LTD.

CIN NO.: L74899DL1985PLC022468

...for better life

Works:

Plot No.44, Pace City-1, Sector 37, Near Hero Honda Chowk, Gurugram - 122001, Haryana, INDIA

Email: distribution@brawnlabs.in | Website : www.brawngroup.in Regd. Office: C-64, Lajpat Nagar-1, First Floor, New Delhi-110024, INDIA Tel.: 011-29815331

Email: solution@brawnbiotech.com

DOLFIN RUBBERS LIMITED

Regd. Office: 26 A, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhiana, Punjab-141012, CIN: L25112PB1995PLC017160

Email: dolfintube@gmail.com; Website: www.dolfintyres.com EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025
(₹ in Lakhs) Except per equity share data

| | | | (₹ in La | khs) Excep | t per equity | share data |
|------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sr. No. | Particulars | | QAURTER ENDED | | | AR DED |
| | | 31.03.2025 (Audited) | 31.03.2024 (Unaudited) | 31.12.2024 (Audited) | 31.03.2025 (Audited) | 31.03.2024 (Audited) |
| 1 | Total Income from Operations | 3952.54 | 3487.31 | 3205.26 | 14401.09 | 12640.95 |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) | 217.37 | 207.61 | 125.19 | 717.35 | 662.38 |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | 217.37 | 207.61 | 125.19 | 717.35 | 662.38 |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) | 154.01 | 148.86 | 70.79 | 512.49 | 474.63 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 152.53 | 149.77 | 69.07 | 511.27 | 480.64 |
| 6 | Equity Share Capital | 1002.99 | 1002.99 | 1002.99 | 1002.99 | 1002.99 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | • | - | • | 2335.94 | 1824.67 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) | | | | | |
| | 1. Basic: 2. Diluted: | 1.54 1.54 | 1.48 1.48 | 0.71 0.71 | 5.11 5.11 | 4.73 4.73 |
| Note: | s: 1. The above is an ex | tract of the | detailed fo | rmat of Qu | arterly/Annu | ual Financial |

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterfy/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterfy/Annual Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com) and the listed entity. (www.dolfintyres.com).

(www.dominyres.com).

2. The above audited results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record at the meeting of the Board of Directors held on 27/05/2025.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited Corporate Identity Number (CIN): L24239MH1924PLC001151 GSK House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400030 Telephone: 022-24959595 • Fax: 022-24959494 Email: in.investorquery@gsk.com • Website: https://india-pharma.gsk.com NOTICE TO SHAREHOLDERS WITH RESPECT TO 100th ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE is hereby given that the 100th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, 27th June 2025 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the business set out in the Notice of the AGM which will be circulated for convening the AGM. The AGM will be held without the physical presence of the Shareholders at a common venue. This is in compliance with the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with the General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard and latest being other subsequent circulars, the latest being dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/19 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") the latest being dated October 24, 2024 (collectively

The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM and attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financia

Year 2024-25 ("Annual Report") is being sent only by electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the

Company/Depository Participants in accordance with the aforesaid

The Notice of the AGM and Annual Report will also be available on the

website of the Company at Website: www.india-pharma.gsk.com and websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited

i.e. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and

The Company is pleased to provide the facility of e-voting to its Shareholders, to enable them to cast their votes on the resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means, using remote

e-voting system (e-voting from e-place other than venue of the AGM) as well as e-voting during the proceeding of the AGM (collectively referred as e-voting"). The Company has engaged the services of NSDL, for

providing the e-voting facility to the Shareholders. The instructions for

Shareholders who wish to register their email address/bank account

Depository Participant (DP)

download-forms/

to be followed from their side, if any, in this regard.

their respective DPs.

Limited at einward@kfintech.com

The Board of Directors has recommended for consideration of the Shareholders a dividend of Rs 42 per share (420%) on face value of Rs 10 each for the year ended 31st March, 2025. The Company has fixed Friday, May 30, 2025 as the "Record date" for determining the entitlement of members to Dividend. The Dividend, if approved, will be payable on or after Monday, 30th June, 2025 to those Shareholders whose names are registered as such in the Register of Members of the Company as on Record date i.e. Friday, May 30, 2025 provided by the depository, subject to deduction of tax at source where applicable. Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of Shareholders with effect from April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to the Shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. Shareholders are also requested to refer to the Notice of the AGM for more details on process

Register / update the details in your demat

account, as per process advised by your

Register / update the details in prescribed form

ISR-1 and other relevant forms with Registrar and Transfer Agents of the Company, KFin Technologies

Member may download prescribed forms from the Company's website at https://india-pharma.gsk.com/en-in/investors/shareholder-information/



referred to as said "SEBI Circulars").

MCA circulars and said SEBI Circular.

under Section 103 of the Companies Act, 2013.

on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

e-voting are provided in the Notice of the AGM.

mandate may follow the below instructions-

Dematerialized

Holding

Physical

Holding

For DOLFIN RUBBERS LIMITED Sd/-KAWALJIT SINGH Chairman & Managing Director DIN: 00942794

GSK

BRAWN BIOTECH LIMITED

CIN:L74899DL1985PLC022468 REGD. OFFICE: C-64, Lajpat Nagar-1, New Delhi 110024

Extract of Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2025

| | | Standalone | | | | |
|-----|--|---------------|------------|------------|--|--|
| SI. | Particulars | Quarter ended | Year ended | Year ended | | |
| No. | Turtourus | 31.03-2025 | 31-03-2025 | 31-03-2024 | | |
| Ш | | Un-audited | Audited | Audited | | |
| 1 | Total income from operation | 235.04 | 1,355.83 | 1,658.27 | | |
| 2 | Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax | (49.44) | (179.81) | (154.42) | | |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after extraordinary items) | (49.44) | (179.81) | (154.42) | | |
| 4 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) | (49.52) | (176.08) | (154.14) | | |
| | for the period (after tax) and Other Comprehensive Income] | | | | | |
| 5 | Equity Share Capital | 300.03 | 300.03 | 300.03 | | |
| 6 | Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in the balance | - | - | - | | |
| | sheet of previos year | | | | | |
| 7 | Earning per share (before extraordinary items) (not annualised): | | | | | |
| | (of rs. 10 each) | - | - | - | | |
| | (a) Basic (Rs.) | (1.65) | (5.87) | (5.14) | | |
| | (b) Diluted (Rs.) | (1.65) | (5.87) | (5.14) | | |
| 8 | Earning per share (after extraordinary items)(not annualised): | | | | | |
| | (of rs. 10 each) | | | | | |
| | (a) Basic (Rs.) | (1.65) | (5.87) | (5.14) | | |
| | (b) Diluted (Rs.) | (1.65) | (5.87) | (5.14) | | |
| NO | TEC . | | | | | |

NOTES :

Place : Delhi

Date: 26-05-2025

NOTES:
1- The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial Results filed with the Stock Exhanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company's website (www.brawnbiotech.com).

2- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 26-05-2025. The Financials has been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ins-AS) to the extent applicable. The Company has for the first time adopted IND-AS beginning 01st April 2017 with transition date of 01st April, 2016.

4- The Company is engaged primarily in the business of Pharmaceuticals. Accordingly, there is no separate reportable segments as pe Ind-AS 108 dealing with Operating Segments.
5- Figures for the quarter ended 31st March 2025 are the differences between the figures for the year ended 31st March 2025 and Nin

month ended 31st December 2024.

Previous year/period figures have been regrouped/rearranged, wherever necessary to make them comparable with the current perio



For and on behalf of Board For Brawn Biotech Limited Sd/ Brij Raj Gupta Director

MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED

Regd. Office: B-376, Upper Ground Floor, Nirman Vihar, New Delhi-110

| | STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | QUARTER AND YEAR EI | NDED MAF | RCH 31, 20 | 25 | (Amo | unts in Lacs) | |
| | | For | the quarter e | | | ear ended | |
| SI No. | Particulars | 31-03-2025 (Unaudited) | 31-12-2024 (Unaudited) | 31-03-2024 (Unaudited) | 31-03-2025 (Audited) | 31-03-2024 (Audited) | |
| 1 | Total Income from Operations | 3,331.62 | 3,271.42 | 3,134.31 | 12,419.78 | 11,505.58 | |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period/year | | | | | | |
| l | (Before Tax, Exceptional and / or Extraodinary Items) | 1,244.73 | 1,377.50 | 715.13 | 4,123.10 | 2,259.16 | |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period/year Before Tax | | | | | | |
| l | (after Exceptional and / or Extraodinary Items) | 1,244.73 | 1,377.50 | 715.13 | 4,123.10 | 2,259.16 | |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period/year after tax | | | | | | |
| | (after Exceptional and / or Extraodinary Items) | 1,601.21 | 1,376.20 | 612.44 | 4,478.28 | 2,173.05 | |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period/year (Comprising | | | | | | |
| l | profit / (Loss) for the period/year (after tax) and other | | | | | | |
| | Comprehensive Income (after tax) | 1,603.54 | 1,376.11 | 611.84 | 4,478.08 | 2,167.76 | |
| 6 | Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10 each) | 9,936.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | |
| 7 | Other equity (Reserves excluding revaluation reserves) | (5,147.35) | (6,750.89) | (9,625.43) | (5,147.35) | (9,625.43) | |
| 8 | Security Premium Account | - | - | - | - | - | |
| 9 | Net worth | 4,788.65 | 3,185.11 | 310.57 | 4,788.65 | 310.57 | |
| 10 | Paid up debt capital / Outstanding debt | 17,613.47 | 18,540.20 | 22,491.83 | 17,613.47 | 22,491.83 | |
| 11 | Outstanding Redeemable Preference Shares | - | - | - | - | - | |
| 12 | Debt / Equity Ratio | 3.68 | 5.82 | 72.42 | 3.68 | 72.42 | |
| 13 | Earning per share (EPS) (Face value of Rs. 10/- each) | | | | | | |
| | (for Continuing and discontinued operations) | | | | | | |
| | 1. Basic | 1.61 | 1.39 | 0.62 | 4.51 | 2.19 | |
| | 2. Diluted | 1.61 | 1.39 | 0.62 | 4.51 | 2.19 | |
| 14 | Capital Redemption Reserve | | | - | - | | |
| 15 | Debenture redemption reserve (Refer note 2) | | | | | | |
| 16 | Debt Service Coverage Ratio | 1.65 | 0.65 | 3.40 | 1.18 | 0.66 | |

The above audited financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2025 have been reviewed and approved by the Aud Committee and Board of Directors in their meeting held on May 26, 2025.

4.92

4.54

In the absence of distributable profits, the Company has not created Debenture Redemption Reserve (DRR). The Company is regular in redeeming debentures matured during the period.
 Information as required by Regulation 52/4) of the Securities and Exchange Roard of India /Listing Obligations and Disclosure Requirements.

3 Information as required by Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements; Regulations, 2015 is as per separate Annexure attached, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed or https://www.bseindia.com.

The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filled with the BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annual financial financial results are available on the websites of the BSE Limited and on the company website: https://mbel.co.in/investor-relation/

For and on behalf of the Board

Sd/-Abhijit Saukhyashil Sathe Director DIN: 10043844

3.77

2.97



MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED

Place : Noida Date : May 26, 2025

17 Interest Service Coverage Ratio

(D.P. JINDAL GROUP COMPANY)

Registered Office: Pipe Nagar, Village Sukeli, BKG Road, NH-17, Taluka Roha, Distt. Raigad-402126 (Maharashtra)
Tel. No. 02194 - 238511; E-mail: secretarial@mahaseam.com; Website www.jindal.com

Corporate Office: Plot No. 30, Institutional Sector - 44, Gurugram - 122003 (Haryana)

Interim Corporate Office: Plot No.106, Institutional Sector-44, Gurugram-122 003 (Haryana); CIN: L99999MH1988PLC080545

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(Rs. in Crores, except per share data)

| | | | STANDALONE | | | CONSOLIDATED | | | | | |
|----|--|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| SI | Particulars | Q | uarter Ende | ed | Year E | Ended | Q | uarter Ende | ed | Year E | nded |
| No |). Particulars | Audited | Unaudited | Audited | Audited | Audited | Audited | Unaudited | Audited | Audited | Audited |
| | | 31-Mar-25 | 31-Dec-24 | 31-Mar-24 | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 | 31-Mar-25 | 31-Dec-24 | 31-Mar-24 | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 |
| 1. | Total income from operations | 1,415.83 | 1,407.97 | 1,214.81 | 5,265.90 | 5,403.12 | 1,417.77 | 1,408.11 | 1,214.90 | 5,268.67 | 5,404.12 |
| 2. | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 299.17 | 255.86 | 294.75 | 1,015.76 | 1,246.09 | 299.24 | 255.51 | 294.83 | 1,013.79 | 1,245.40 |
| 3. | Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 299.17 | 255.86 | 294.75 | 1,015.76 | 1,246.09 | 298.87 | 251.75 | 289.73 | 1,000.20 | 1,222.81 |
| 4. | Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 242.53 | 190.17 | 223.29 | 792.85 | 974.93 | 242.26 | 186.06 | 218.28 | 777.32 | 951.66 |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 242.69 | 190.20 | 222.71 | 793.07 | 974.99 | 206.40 | 187.19 | 288.96 | 742.88 | 1,023.76 |
| 6. | Equity Share Capital (Face Value of Rs. 5/- each) | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| 7. | Other Equity | | | | 6,205.92 | 5,546.86 | | | | 6,272.94 | 5,663.70 |
| 8. | Earning per Share Basic/Diluted Earning Per Share Not Annualised (Rs.) | 18.10 | 14.19 | 16.66 | 59.17 | 72.76 | 18.06 | 13.89 | 16.30 | 58.02 | 70.99 |

Note:

I. The above is an extract of the detailed Financial Results for the quarter & year ended 31st March 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full financial results for the quarter & year ended 31st March, 2025 are available on the website(s) of Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the website of the Company i.e. www.jindal.com and can also be accessed by scanning the given QR code.

For MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED

Place: New Delhi Date: 26th May, 2025



Managing Director DIN: 00405736

SAKET JINDAL

JINDAL DRILLING AND INDUSTRIES LIMITED

(D.P. JINDAL GROUP COMPANY)

Registered Office: Pipe Nagar, Village Sukeli, N.H. 17, B.K.G.Road Taluka Roha, Distt: Raigad-402126, Maharashtra (India)
Tel: 02194-238511-12, Fax: 02194-238511, Web: www.jindal.com, E-mail: secretarial@jindaldrilling.in
Corporate Office: Plot No. 30, Institutional Sector-44, Gurugram - 122003 (Haryana)

Interim Corporate Office: Plot No.106, Institutional Sector-44, Gurugram-122 003 (Haryana), CIN: L27201MH1983PLC233813

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(Rs. In Lakhs except earning per share data)

| | | STANDALONE | | | | | CONSOLIDATED | | | | |
|-----|---|---------------|-----------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| SI. | Particulars | Quarter Ended | | Year Ended | | Quarter Ended | | Year Ended | | | |
| No. | Particulars | Audited | Unaudited | Audited | Audited | Audited | Audited | Unaudited | Audited | Audited | Audited |
| | | 31-Mar-25 | 31-Dec-24 | 31-Mar-24 | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 | 31-Mar-25 | 31-Dec-24 | 31-Mar-24 | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 |
| 1. | Total income from operations including other income | 26,361 | 25,407 | 20,852 | 88,433 | 64,599 | 26,361 | 25,407 | 20,852 | 88,433 | 64,599 |
| 2. | Net profit / (loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 7,147 | 6,517 | 4,204 | 18,841 | 15,165 | 7,147 | 6,517 | 4,204 | 18,841 | 15,165 |
| 3. | Net profit / (loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 7,147 | 6,517 | 4,204 | 18,841 | 15,165 | 8,980 | 8,237 | (476) | 26,347 | 8,870 |
| 4. | Net profit / (loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items but before Other Comprehensive Income) | 5,328 | 4,875 | 3,180 | 14,084 | 11,410 | 7,161 | 6,595 | (1,500) | 21,590 | 5,115 |
| 5. | Total comprehensive income for the period [comprising profit /(loss) for the period after tax and other comprehensive income (after tax)] | 5,475 | 4,550 | 2,998 | 13,471 | 11,428 | 8,311 | 6,897 | (1,794) | 22,744 | 5,439 |
| 6. | Equity Share Capital (Face value of Rs. 5 each) | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 | 1,449 |
| 7. | Other equity | - | - | - | 1,29,580 | 1,16,254 | - | - | - | 1,57,371 | 1,34,772 |
| 8. | Earning per Share (of Rs. 5 each) Basic / Diluted Earning Per Share Not Annualised (in Rs.) | 18.39 | 16.82 | 10.97 | 48.60 | 39.37 | 24.71 | 22.77 | (5.18) | 74.50 | 17.65 |

Note:

1. The above is an extract of the detailed Financial Results for the quarter & year ended 31st March 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full financial results for the quarter & year ended 31st March, 2025 are available on the website(s) of Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the website of the Company i.e. www.jindal.com and can also be accessed by scanning the given QR code.

for JINDAL DRILLING AND INDUSTRIES LIMITED





call on 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at pallavid@nsdl.com For GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited

Ajay Nadkarni

Place: Mumbai

Vice President - Administration,

Dated: 27th May, 2025

Real Estate & Company Secretary

Members holding shares in electronic form may please note that their bank details as furnished by the respective DPs to the Company will be considered for remittance of dividend as per the applicable regulations of the DPs and the Company will not be able to accede to any direct request from such Members for change/addition/deletion in such bank

details. Accordingly, Members holding shares in electronic form are requested to ensure that their Electronic Bank Mandate is updated with

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions


('FAQs') for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders

available at the download section of www.evoting.nsdl.com or









HDFC BANK

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखाः सी-25, भगवन्त दास रोड्, सेंट जेवियर स्कूल के सामने सी–स्कीम, जयपुर–302001 CINL65920MH1994PLC080618 Website:www.hdfcbank.com

stand your world रजिस्टर्ड कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर पारेल (पश्चिम), मुम्बई-400020

We understand your world जीवन्टर्ड कार्यालय : एवडीएकसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुच्हं-40020 किट्टर कार्यालय : एवडीएकसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुच्हं-40020 किट्टर के स्वारा 13(2) सपिटित प्रतिभृतिकरण और पुर्नगटन अभिर प्रतिभृति कि प्रवर्तन अधिनियम 2002 (नियम) के नियम 3 के तहर अधोहस्ताशस्कर्ता ने एवडीएफसी वैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारो होते हुए बिल्तीय आस्त्रियों का प्रतिभृतिकरण और पुर्नगटन और प्रतिभृति हित प्रवंतन अधिनियम 2002 (अधिनियम) में यारा 13(12) सपिटित प्रतिभृति हित प्रवंतन नियम 2002 (जियम) के लियम 3 (पूर्ववर्ती एवडीएफसी लिमिटेड का प्रतिभृति वित्त का प्रतान प्रवर्ती प्रतिभाव के साथ एवडीएफसी के लियम 3 (पूर्ववर्ती एवडीएफसी) के तहर प्रतन प्रविल्व का प्रयोग का प्रतान अस्ति का प्रयोग का प्रतान प्रतन का प्रतान का प्रयोग प्रतान कर हुए मांग पत्र थारा 13(2) के अल्लर्गत ऋणीयों,कानुर्ती यारिसीं का पूर्वा प्रतान कि लियस के भीतर निन्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित नोटिसों के साथ का पुर्नमुगतान करने के लिए कहा पाया था। अधोहस्ताशस्कर्ती क्रायत किंद्रत ऋणीयों,कानूनी यारिसीं कानूनी प्रतिनिधियों के अल्लिम जात पत्र पर परिसरीं एवं वे नीटिस चिपकारों जाने हैं। कविंत सूचनाओं की प्रतियो अधोहस्ताशस्कर्ता के पास उपलब्ध है तथा उचन ऋणीयों कानूनी यारिसीं कानूनी प्रतिनिधियों के वित्त मुचनाओं की प्रतियोग अधीहस्ताशस्कर्ता से प्राप्त कर सकते हैं।

उपलब्ध के प्रतान करने पर परिसरीं एवं वे नीटिस चिपकार के अधिक स्वार क्षार क्षार के स्वर प्रतन्त हैं।

उपलेक संस्पर्त में स्वर्णीयों अनुस्ति वित्त स्वर्णीय के स्वर सन्त कर है। क्षार के भीतर एवडीएक के प्रतान नी स्वर्णीय कार्यों कार्यों कर सकते हैं।

चाह ता सम्बान्धन प्रातचा किसा मा साधारण काव ावबस पर कावालच घण्टा क दारान अधाहत्तावरकता स प्राप्त कर सकत है। उपरोक्त संदर्भ में क्राणीयाँ कानुनी वारिसाँ कानुनी प्रतिनिध्यों को वह सूचना दी जाती है की बेड़ सन निटिस के प्रकाशन से 60 विवस के मीतर एचडीएफसी लिमिटेड को यहां नीचे वर्णित उनके नामों के समक्ष वर्णित राशियां जो निम्न कॉलम मों में वर्णित विनाकों से कुल मुगतान /वसूली तक की विनांक का ऋण अनुबन्ध तथा अन्य लिखित प्रश्नों यदि कोई है तो, जो उक्त ऋणियों द्वारा निमारित किये गये थे के अनुसार आगे के व्याज सिंहत मुगतान कर दो ऋणों के बकाया पूर्वभूगतान हेतु निम्नलिखित प्रतिभूत आस्तियों को उक्त सम्बन्धित ऋणीयों द्वारा एचडीएफसी के पास प्रतिभृति के रूप में बंधित रखा गया हो, अर्थाणीयों कानुनी वारिसों/कानुनी प्रतिनिधियों का अधिनियम की धारा 13 उपधारा (8) के प्रायधानों के संवर्भ में उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों के मोचन हेतू ध्यान आकर्षित किया जाता है

| क्र | ऋणीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी | कुल बकाया | मांग सूचना | प्रतिभूत आस्तियों/ |
|-----|---|--|----------------|--|
| सं. | प्रतिनिधियों का नाम | राशि | की दिनांक | अचल सम्पत्तियों का विवरण |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| 1 | श्री पप्पूराम पुत्र श्री चांदसिंह श्रीमती दीपा पत्नी श्री पप्पूराम खाता संख्या: - 663100186 | रू. 16,60,335/-* दिनांक 30/04/2025 तक | 17-मई- 2025 | प्लॉट संख्या जी-234, आनंदम आवास, ब्लॉक-जी, गांव-अलावलपुर, सेक्टर- 19, धारूढेडा, जिला-नेवाडी, हरियाणा क्षेत्रफल लगभग - 102 वर्गगज (85.28 वर्गमीटर) सीमाएं:- पूर्व: - प्लॉट संख्या जी-235, पश्चिम:- प्लॉट संख्या जी-233, उत्तर:- रोड 9 भीटर, दक्षिण:- प्लॉट संख्या जी-260 |

न्लागू दर से आगे का व्याज, आकस्मिक खर्चे, लागतें, शुल्क इत्यादि जो भुगतान/ वसूली की तिथि तक व्यय किये गये। ्र रामुरू स आग का ज्यान, आकास्मक द्रण, तमारा, शुरूक इत्याद जा मुनतान, वसूला का ताब तक क्या का याय वा याय वा वा यदि उनत ऋणी एचडीएफसी को कवित भुगतान करने में असमर्थ इंदर्त है तथ एचडीएफसी उनत अधिवियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों का पूर्णारूप से किल ऋणीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों की जोखिम पर लागतों तथा परिणामों हेतु उपरोक्त प्रतिभूत आस्तियों / अचल सम्पत्तियों के विकट्स कार्यवाही करेणा। ऋणी/कानूने वारिसां, कानूनी प्रतिनिधि उनत अधिनियम के अन्तर्गत कथित प्रतिभृत आस्तियों / अचल सम्पत्तियों में विकट्म, पट्टे या अन्य किसी तरीके से बिना एचडीएफसी की पूर्व लिखित सहसित के स्थानान्तरण करने हेतु निषद्ध है कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों या बनाये गये नियमों का उल्लंधन या विरोध करता है तो वह अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध अर्थरण्ड/सजा के लिए उत्तरस्तर्यो होगा।

थानः रेवाड़ी (हरियाणा) दिनांकः- 28.05.2025 हस्ताक्षर/- प्राधिकृत अधिकारी वास्ते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

| (anti- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना | | | | | | |

| अनु. | कर्जदाता (ओं) का नाम | गिरवी संपत्ति(यों) | एन.पी.ए की | बकाया राशि |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|
| क्र. | (y) | का विवरण | तारीख | (ক্.) |
| | (" | (बी) | (सी) | (륑) |
| | | | 06.05.2025 | रु. 78,70,666.70/- (रुपए अठहत्तर |
| | 1. कमल बत्रा प्रोपराइटर मेहर ओवरसीज | | | लाख सत्तर हजार छह सौ छियासठ |
| | 2. महिमा बत्रा | गैराज के साथ) पॉकेट बी-4, अशोक | | और सत्तर पैसे मात्र) 14.05.2025 |
| | 3. मेहर बत्रा | विहार फेज ॥, नई दिल्ली-110052। | | के अनुसार |

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पूनर्भगतान में लगातार चुक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदुद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धापित समयावधि के अंदर सरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता' सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित

अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं। कृते सम्मान फिनसर्व लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

MPS INFOTECNICS LIMITED

Regd. Off.: 703, Arunachal Building, 19 Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN:L30007DL1989PLC131190, Ph: 011-43571044, Fax:011-43571047; Email: info@mpsinfotec.com AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025 (Consolidated)

| S. | Particulars | Quarter Ended | | | Year Ended | | |
|-----|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| No. | i arrivatars | 31-Mar-25 Audited | 31-Dec-24 Un-audited | 31-Mar-24 Audited | 31-Mar-25 Audited | 31-Mar-24 Audited | |
| 1 | Total income from operations (net) | 8.05 | 11.11 | 10.63 | 44.10 | 54.58 | |
| 2 | Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax | (722.46) | (98.81) | (121.41) | (1,010.56) | (401.97) | |
| 3 | Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax | (707.56) | (84.37) | (110.20) | (952.34) | (355.88) | |
| 4 | Total Comprehensive Income for the Period (Net of Taxes) | (707.37) | (84.04) | (107.27) | (951.16) | (342.71) | |
| 4 | Equity Share Capital (Face Value Rs.1/- per share) | 37744.37 | 37744.37 | 37744.37 | 37744.37 | 37744.37 | |
| 5 | Reserves excluding Revaluation reserves (i.e. Other equity) | | | | 4432.64 | 5384.27 | |
| 6 | Earning Per Share (Basic) | (0.019) | (0.002) | (0.003) | (0.025) | (0.009) | |
| 7 | Earning Per Share (Diluted) | (0.019) | (0.002) | (0.003) | (0.025) | (0.009) | |
| No | to: | | | | | | |

स्थान : दिल्ली

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements)Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.mpsinfotec.com

2. The key standalone financial information are as under

| Particulars | (| Quarter Ende | d | Year | Ended |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Particulars | 31-Mar-25 | 31-Dec-24 | 31-Mar-24 | 31-Mar-25 | 31-Mar-24 |
| | Audited | Un-audited | Audited | Audited | Audited |
| Total Income | 8.05 | 11.11 | 10.63 | 44.10 | 54.58 |
| Profit before tax | (722.46) | (98.81) | (121.41) | (1010.56) | (401.97) |
| Profit after tax | (707.56) | (84.37) | (110.20) | (952.34) | (355.88) |

3. The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on May 26, 2025



For MPS Infotecnics Limited Peevush Kumar Aggarwal Chairman

DIN:00090423

प्राधिकृत अधिकारी

Place : New Delhi Date: 26.05.2025

> ब्रान बायोटेक लिमिटेड CIN:L74899DL1985PLC022468 पंजी. कार्या: सी—84, लाजपत नगर—1, नई दिल्ली—110024 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही व वर्ष के लिए स्टैंडलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

| | | | | (*. (") |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|
| _ | | | स्टैंडलोन | |
| क्र. सं. | विवरण | समाप्त तिमाही | समाप्त वर्ष | समाप्त वर्ष |
| ١ | | 31.03-2025 | 31-03-2025 | 31-03-2024 |
| L | | अनंकेक्षित | अंकेक्षित | अंकेक्षित |
| 1 | प्रचालनों से शुद्ध आय | 235.04 | 1,355.83 | 1,658.27 |
| 2 | कर से बाद साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि) | (49.44) | (179.81) | (154.42) |
| 3 | कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद) | (49.44) | (179.81) | (154.42) |
| 4 | अवधि के लिए कुल समग्र आय (अवधि (कर के बाद) के लिए शामिल | (49.52) | (176.08) | (154.14) |
| | लाभ / (हानि) और अन्य समग्र आय) | | | |
| 5 | इक्विटी शेयर पूंजी | 300.03 | 300.03 | 300.03 |
| 6 | आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित मूल्यांकन को छोड़कर) | - | - | - |
| | | | | |
| 7 | अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पहले) | | | |
| Ė | (वार्षिकीकृत नहीं) (प्रत्येक रु. 10) | - | - | - |
| | (ए) बेसिक (रु.) | (1.65) | (5.87) | (5.14) |
| | (बी) डायल्यूटिड (रु.) | (1.65) | (5.87) | (5.14) |
| ۰ | अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) | | | |
| 8 | (वार्षिकीकृत नहीं) (प्रत्येक रु. 10) | | | |
| | (ए) बेसिक (रु.) | (1.65) | (5.87) | (5.14) |
| | (बी) डायल्यूटिड (रु.) | (1.65) | (5.87) | (5.14) |
| _ | | | | |

. उक्त सेबी (सूचीबद्ध और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट बीएसई (www.bseindia.com) कपनी की वेबसाइट (www.brawnbiotech.com) पर भी उपलब्ध है।

2. उक्त परिणामों की समीक्षा अंकेक्षण समिति द्वारा की गई है और 26.05.2025 को उनकी आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हैं। वित्तीय परिणाम लागू नियमों के लिए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) के अनुपालन में तैयार किए गए हैं


कंपनी ने 01 अप्रैल 2016 की परिवर्तन तिथि के साथ 01 अप्रैल 2017 को पहली बार इंड एएस को अपनाया है। कंपनी प्रमुख रूप से फॉर्मास्यूटिकल्स के व्यापार में शामिल है। तदनुसार, प्रचालन खंडों के साथ इंड-एएस 108 डीलिंग के

अनसार कोई अलग प्रतिवेदित खंड नहीं है। . 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए आंकड़ों में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष और 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ माह वे

आंकड़ों के बीच अंतर है।

पूर्व अवधि आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, वर्तमान अवधि आकंडों के साथ तुलनात्मक बनाने के लिए पुनसमूर्हित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

स्थान : दिल्ली दिनांक : 25.05.2024



ACRE

एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी - 66, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400051 । टेलीफोन : 022 68643101।

. पंजीकृत कार्यालय : 14वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019।

ई-मेल : acre.arc@acreindia.in I वेबसाइट : www.acreindia.in I CIN : U65993DL2002PLC115769 सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

| | ١- | | Ø | |
|--------------|---|---|-----------------------------|---|
| अनु. क्र. | कर्जदाता (ओं) का नाम (ए) | गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी) | एन.पी.ए की तारीख (सी) | बकाया राशि (रू.) (डी) |
| 1. | कर्ज खाता क्र. A036OXXIII (डीएचएफएल का पूर्व एलएएन 00001636 और आईएचएफएल (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) का एलएएन S800005018/ HDHLJKS00487121) 1. अमित केसरवारी उर्फ अमित केसरवानी 2. शनि कुमार केसरवारी उर्फ सनी कुमार केसरवानी | निर्मित दूसरी मंजिल, छत/टेरेस के अधिकारों के बिना, संपत्ति बेअरिंग नंबर एस-2/121 में, पुराना नंबर ई-25, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, खसरा नंबर 19, खतौनी नंबर 30 में, गांव नांगली जालिब के क्षेत्र में स्थित है, पुराना महावीर नगर के नाम की कॉलोनी में, नई दिल्ली-110018। | 30.06.2021 | रु. 29,89,129.47/- (रुपए उनतीस लाख नवासी हजार एक सौ उनतीस और सैंतालीस पैसे मात्र) 24.04.2025 के अनुसार |

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है । उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भगतान में लगातार चुक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि , वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''। सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सरक्षित लेनदार की पर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

'किसी भी शिकायत के लिए आप श्री मोहम्मद शारिक मलिक, शिकायत निवारण अधिकारी से, फोन नंबर 011 - 66115609, ईमेल : complaint@acreindia.in पर संपर्क कर सकते हैं. विस्तृत नीति संगठन के अंदर शिकायत निवारण तंत्र पर https://www.acreindia.in/compliance पर देखी जा सकती है ''।

कृते एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड ए सी आर ई - 102 - के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकत अधिकारी

| | 0 | | | |
|--------------|---|--|-----------------------------|---|
| | सिक्यास्टाइजशन | एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समें (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत | ट आफ ।सक्या।रट सूचना | । इटरस्ट एक्ट, 2002 |
| अनु. क्र. | कर्जदाता (ओं) का नाम (ए) | गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी) | एन.पी.ए की तारीख (सी) | बकाया राशि (रू.) (डी) |
| 1. | कर्ज खाता क्र. HHLDPR00546096 1. बिश्वनाथ मोंडल 2. रिंकू मोंडल | भाग बेअरिंग नंबर 8, खसरा नंबर 449/3 और 450/1/1 में से संपत्ति, ऊपरी तल मंजिल, पीछे दाईं तरफ/उत्तरी पूर्वी भाग, रुद्राक्ष अपार्टमेंट, गांव मुंडा, नई दिल्ली-110041। | 06.05.2025 | रू. 26,60,701.92/- (रूपए छब्बीस लाख साठ हजार सात सौ एक और बानवे पैसे मात्र) 14.05.2025 के अनुसार |
| 2. | कर्ज खाता क्र. HHLVAS00518183 1. अजय छाबड़ा 2. साक्षी | फ्लैट नंबर-801, आठवीं मंजिल, स्काईटेक मेरियन फेज-1, प्लॉट नंबर-6, क्रॉसिंग रिपब्लिक, डूंडाहेडा गाजियाबाद-201009, उत्तर प्रदेश। | 06.05.2025 | रू. 46,03,796.30/- (रूपए छियालीस लाख तीन हजार सात सौ छियानवे और तीस पैसे मात्र) 14.05.2025 के अनुसार |
| 3. | कर्ज खाता क्र. HHLBHD00557710 1. विश्वनाथ मोंडल 2. रिंकू मोंडल | भाग बेअरिंग नंबर 9, ऊपरी तल मंजिल, पीछे बाईं तरफ/उत्तरी पूर्वी भाग रुद्राक्ष अपार्टमेंट, खसरा नंबर 449/3 और 450/1/1 में से संपत्ति, गांव मुंडका का लाल डोरा, नई-दिल्ली, 110041। | 06.05.2025 | रु. 31,09,796.08/- (रूपए इकतीस लाख नौ हजार सात सौ छियानवे और आठ पैसे मात्र) 14.05.2025 के अनुसार |
| 4. | कर्ज खाता क्र. HHLDMT00398518 1. शिव गुप्ता 2. सरोज गुप्ता | मकान/संपत्ति नगरपालिका नंबर 16/217-218, पूर्वी भवन में पश्चिमी भाग), दूसरी मंजिल, ब्लॉक-एसी, गली नंबर 7 और 8, वार्ड नंबर 16, खसरा नंबर 461/33- 36-37, जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005। | 06.05.2025 | रु. 52,54,631.70/- (रुपए बावन लाख चौवन हजार छह सौ इकतीस और सत्तर पैसे मात्र) 14.05.2025 के अनुसार |
| 5. | कर्ज खाता क्र. HHLNOI00315423 1. धमेंद्र दहिया 2. सुनीता | प्लॉट नंबर 2280-पी, सेक्टर 9-9ए अर्बन एस्टेट, हुडा, बहादुरगढ़-124510, हरियाणा। | 06.05.2025 | रू. 93,02,126.31/- (रूपए तिरानवे लाख दो हजार एक सौ छब्बीस और इकतीस पैसे मात्र) 14.05.2025 के अनुसार |
| 6. | कर्ज खाता क्र. HHLMAT00505217 1. सत्येन्द्र कुमार सिंह 2. हेमलता 3. मुकुल कुमार (गारंटर) | मकान नंबर 14, खसरा नंबर 275 का हिस्सा, बलदेव पुरम, औरंगाबाद बांगर के अंदर, डॉ. संजय क्लीनिक के पास, बलदेवपुरम, तहसील और जिला-मधुरा- 281004, उत्तर प्रदेश। | 10.04.2025 | रु. 26,37,101.16/- (रुपए छब्बीस लाख सँतीस हजार एक सौ एक और सोलह पैसे मात्र) 05.05.2025 के अनुसार |

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है । उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भगतान में लगातार चुक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदुद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि , वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भूगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'' सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित भपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना

> कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकत अधिकार्र

स्थान : नई दिल्ली / गाज़ियाबाद / बहादुरगढ़ / मथुरा

करने से प्रतिबंधित हैं।



पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड

CIN: L32109DL2003PLC119416 पंजीकृत कार्यालयः डीटीजे–209, दूसरा फ्लोर, डीएलएफ टॉवर–बी, जसोला, नई दिल्ली–110025

कार्पोरंट कार्यालयः पी—4/2 से 4/6, साइट बी, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, (यू.पी) —201306 ईमेलः investors@pgel.in वेबसाइटः www.pgel.in टेलीफोनः +011-41421439/0120-2569323

सूचना

कंपनी के सदस्यों को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की घारा 108. 110 एवं अन्य लाग प्रावधान, यदि कोई हो, (वर्तमान में उस पर लागू कोई भी सांविधिक संशोधन या पून: अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 एवं 22 और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किया गया आम बैठकों पर सचिवीय मानक–2 ('एसएस–2'), प्रत्येक यथासंशोधित के प्रावधानों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अपने सामान्य परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर 2024 (संयुक्त रूप से 'एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्घारित आवश्यकताओं के अनुपालन में कंपनी डाक मतपत्र सूचना दिनांक 12 मई, 2025 की घारा 102 के साथ पठित घारा 110 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण के साथ) (यहां के बाद 'सूचना' के रूप में संदर्भित) में निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों के संबंध में डाक मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करती है।

अधिनियम के उपरोक्त कथित प्रावधानों, सेबी सुचीकरण विनियम और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी ने उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी या डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ पंजीकृत उनके ई-मेल पते पर ई-मेल के माध्यम से सूचना मेजने का कार्य मंगलवार, 27 मई, 2025 को पूरा कर लिया है जिनके नाम शुक्रवार, 23 मई, 2025 (कट-ऑफ तिथि) को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/लामार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी ने सभी सदस्यों को ई—वोटिंग सुविघा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिन') की सेवाएं ली हैं। ई–वोटिंग प्रक्रिया सूचना में नोट्स में दी गई है। सूचना के साथ व्याख्यात्मक विवरण कंपनी की वेबसाइट www.pgel.in और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी प्रदर्शित की गई है। सूचना प्राप्त नहीं होने पर कट—ऑफ तिथि को सदस्य इसे उपरोक्त किसी भी वेबसाइट से डाउनलोंड कर सकता है। सदस्यों को कोई भौतिक प्रति नहीं मेजी गई है और सदस्यों की सहमति/असहमति केवल ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इस संबंध में सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है किः

क) डाक मतपत्र के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले कामकाज को अधिनियम के साथ पठित उसके अधीन बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीयन विनियम''), समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार . -वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।

ख) सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना शुक्रवार, 23 मई, 2025 जो कि कट–ऑफ तिथि है, के अनुसार की जाएगी।

ई-वोटिंग बुधवार, 28 मई, 2025 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और गुरूवार, 26 जून, 2025 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। उसके

बाद केफिन द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा।

स्थानः ग्रेटर नोएडा

तिथिः 27 मई, 2025

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के मामले में (ई-वोटिंग दिशानिर्देशों के लिए) सदस्यगण सूचना में दिये गये निर्देशों को भली-मांति पढ़ लें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए सदस्यगण https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या केफिन से फोन नं. 1800-309-4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए सुश्री पूजा मिश्रा, मैसर्स पूजा मिश्रा एंड कं प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

डाक मतपत्र का परिणाम शनिवार, 28 जून, 2025 को सायं 05.00 बजे तक या उससे पहले अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाएगा और इसे कंपनी की वेबसाइट www.pgel.in, केफिन की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी सूचना बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है, को भी दी जाएगी।

> बोर्ड की आज्ञानुसार कते पीजी इलेक्टोप्लास्ट लिमिटेड हस्ता /-दीपेश केडिया

कंपनी सचिव

Notice to Appear / Attend Proceedings of DLM&SFC- Ldh

Through this Publication This is for Constructive Notice for respondent KUTN FITT 54, AMAR NAGAR-A, KHIRNI PHATAK, KHATIPURA, JAIPUR, RAJASTHAN, 302021 to appear in person or through Authorized representative before the District level Micro & Small facilitation Council Ludhiana, District Industries Centre, Ludhiana on dated 14-08-2025 regarding claim reference petition submitted by VANEETA TEXCRAFT PRIVATE LIMITED 320-321, INDUSTRIAL AREA-A, BLOCK- 144, CHEEMA VANCEIA IEXOKAT PRIVATE LIMITED 320-321, INDUSTRIAL AREA-4, BLOCK- 144, OTECHNO.

CHOWK, LUDHIANA, 141003 U/s 18(1) of MSME Act 2006 bearing Reference no:

MSEFC/DIC/12/23/2885, if respondent still fails or omits to appear as above then arbitration proceedings shall be conducted as per section 23 & 25 of Arbitration & Conciliation Act and award shall also be passed nthe basis of evidence before it.

Member Secretary cum General Manager, District Industries Centre, Industrial Estate, Ludhiana.

Ph. No:0161-2540695, Email Id: dicludhiana5@gmail.com, Iudhiana.msefo@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL NEW DELHI BENCH- IV, New Delhi

Advertisement Detailing Petition

(Pursuant to Rule 35 of the National Company Law Tribunal, 2016)

Company Petition No. (CAA)/48/ND/2025 Connected with
Company Application No. (CAA)/26/ND/2025

IN THE MATTER OF THE SCHEME OF AMALGAMATION UNDER SECTION 230-232 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH COMPANIES

(COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016 BY AND BETWEEN

KANAV REALTECH PRIVATE LIMITED

PETITIONER COMPANY NO.1/TRANSFEROR COMPANY NO.1/

Having registered office at: Unit No. 105, First Floor, LSC Vardhman's Sidhant Shopping Plaza, Savita Vihar, East Delhi, India – 110092 CIN: U45400DL2015PTC284612

SHAKTIMAN INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED

PETITIONER COMPANY NO.2/TRANSFEROR COMPANY NO.2/

Having registered office at: Unit No. 105, First Floor, LSC Vardhman's Sidhant Shopping Plaza, Savita Vihar, East Delhi, India – 110092 CIN: U45400DL2011PTC216895 WITH AND INTO

ASTEROID SHELTERS HOMES PRIVATE LIMITED

PETITIONER COMPANY NO.3/TTRANSFEREE COMPANY/

Having registered office at: Unit No. 105, First Floor, Vardhman's Sidhant - Shopping Plaza, LSC, Savita Vihar, East Delhi, India - 110092 CIN: U70200DL2012PTC245035

NOTICE OF PETITION

A petition under sections 230-232 of the Companies Act, 2013, for obtaining the sanction of the Scheme of Amalaamation was presented by M/s. Kanav Realtech Private Limited (Transferor Company No.1/ Petitioner Company No.1), M/s. Shaktiman Infrastructures Private Limited (Transferor Company No.2/ Petitioner Company No. 2) and M/s Asteroid Shelters Homes Private Limited (Transferee Company/ Petitioner Company No. 3) on 20.05.2025, and the said petition is fixed for hearing before the National Company Law Tribunal, Delhi Bench (Court-IV) on 22.07.2025

Any person desirous of supporting or opposing the said petition/application/reference should send to the petitioner's advocate, a notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than two days before the date fixed for hearing of the petition/application/reference. Where he seeks to oppose the petitioner's application/reference, the grounds of opposition or a copy of his/her affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition/application/reference will be furnished to the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

DATE: 28.05.2025

PNAM & Co. LLP F-14/15, Second Floor Shivam House Middle Circle Connaught Place New Delhi-11000 9999366607/9899199120 complianceandlegal@pnam.co

मवाना सुगर्स लिमिटेड CIN: L74100DL1961PLC003413

पंजीकृत कार्यालयः पांचर्यी मंजिल, कीर्ति महल, 19, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 125 दूरभाष नं.: 91-11-25739103, फैक्स नं.: 91-11-25743659 wanasugars.com, वेवसाइटः www.i ई-मेल पता तथा अन्य जानकारी के

अद्यतन के लिए सदस्यों को सूचना

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी साधारण परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20, 2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 एवं 9/2024 देनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसम्बर 2021, 05 मई, 2022 तथा 28 दिसम्बर, 2022 तथा 25 सितम्बर, 2023 एवं 19 सितम्बर 2024 (जिसे सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' कहा गया है) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79, सेबी/एचओ, सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 तथा सेबी/एचओडीडीएचएस/पी/सीआईआर/2022/ 0063 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 13 मई, 2022 तथा 5 जनवरी, 2023, 7 अक्टूबर, 2023 तथा 3 अक्टूबर, 2024 क्रमशः ासे सामृहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' कहा गया है) के अनुसार कंपनियों को बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधानों ('ओएवीएम के जरिए वार्षिक साधारण आम बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') के अनुसार कंपनी की आगामी 61वीं एजीएम **वीसी/ओएवीएम** के माध्यम से शनिवार, 28 जन, 2025 को पर्वाहन 11,00 बजे (भामास) आयोजित की जाएगी अतएव, सदस्यगण सिर्फ वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं एव उसमें भाग ले सकते हैं।

कपर उल्लेखित एमसीए परिपनों तथा सेही परिपनों के अनुसार 61वीं एजीएम की सचना के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उन सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनके ई-मेल का पता कंपनी/पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट ('आरटीए' अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी')/डिपॉजिटरी के साथ **पंजीकृत हैं।** कंपनी पहले की तरह ही अपने सभी सदस्यों को एजीएम के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग की सविधा भी प्रदान कर

आपका ईमेल अगर पहले से ही कंपनी/आरटीए अथवा डीपी/डिपॉजिटरी के साथ पहले ही पंजीकत तो एजीएम की सचना के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा ई-वोटिंग के लिए लॉगइन का विवरण आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेज दिए जाएंगे। अगर आपका ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए अथवा डीपी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, तो सूचना, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा ई-वोटिंग के लिए लॉगइन का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल पता के पंजीयन के लिए कृपया नीचे उल्लेखित निर्देशावलियों का अनुसरण करें। ई-मेल पता तथा बैंक खाता के पंजीकरण/अद्यतन का विवरणः

| भौतिक | कंपनी के आरटीए यानी एमएएस सर्विसेस लिमिटेड, पता टी-34, दूसरी | | |
|-------------------|---|--|--|
| प्रारूप | मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II, नई दिल्ली 110 020 के पास | | |
| में धारण | भलीभांति भरे हुए प्रपत्र सं. आईएसआर-1 पर अनुरोध भेजें, जिसे कंपनी | | |
| रहने पर | की वेबसाइट www.mawanasugars.com के अधीन इंवेस्टर रिलेशन | | |
| | टैब के साथ आरटीए की वेबसाइट यानी www.masserv.com के | | |
| | अधीन डाउनलोड टैब से डाउनलोड किया जा सकता है। आप डिजिटल | | |
| | हस्ताक्षर के साथ प्रपत्र सं. आईएसआर-1 आरटीए के ईमेल आईडी | | |
| | investor@masserv.com पर भेज सकते हैं एवं उसकी प्रतिलिपि | | |
| | corporate@mawana sugars.com पर कंपनी के पास भी भेज | | |
| | सकते हैं। | | |
| टिग्रेट पारूप में | कामा आहे हीपी से समार्क करें एवं हीपी की सलाह पर प्रक्रिया के | | |

धारण रहने पर अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाते के विवरण का पंजीयन कराएं। -वोटिंग जानकारीः

. जपनी अपने शेयरधारकों को एनएसडीएल द्वारा व्यवस्था की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेवा के

नाध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे संबंधित विवरण एजीएम की सूचना प्रदान की जाएगी तथा कंपनी की वेबसाइट यानी <u>www.mawanasugars.com</u> पर भी एपलब्ध कराई जाएगी। जीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट-

www.mawanasugars.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम के उद्देश्य के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी।

किसी भी तरह के प्रश्न के लिए सदस्यगण कंपनी को प्रतिलिपि चिन्हित कर ऊपर उल्लेखित पत तथा ई-मेल आईडी पर आरटीए को लिख अथवा सम्पर्क कर सकते हैं।

कृपया ध्यान हैं कि सेबी परिपन्न दिनांक 03/11/2021 एवं दिनांक 16/03/2023 के अनुसार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सभी लमांशों का भुगतान किया जाएगा। अगर आपने अपने बैंक के ब्यौरे का अद्यतन नहीं कराया है, तो कृपया उसे दिनांक 21/06/2025 अथवा उससे पहले अद्यतन करवा लें। अगर आपका शेयर भौतिक प्रारूप में धारण है, तो कृपया आरटीए के पास मूल रह चेक साथ आईएसआर-1 भर कर अपना बैंक का ब्यौरा प्रदान करें। अगर आपका शेयर डिंमैट प्रारूप में धारण है, तो कृपया अपने डीपी के साथ अपने बैंक का ब्यौरा का अद्यतन कराएं।

कृते मवाना सुगर्स लिमिटेड

(अशोक कुमार शुक्ला) कंपनी सचिव एसीएसः 29673 दिनांक : 27 .05 .2025